

# Anant Raj Limited

CIN : L45400HR1985PLC021622

Head Off : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001

Tel : 011-43034400, 23324127, 23323880, 43582879

E-mail : info@anantrajlimited.com Website : www.anantrajlimited.com

Regd. Office : CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051

Tel : (0124) 4265817



**ARL/CS/13498**

**July 25, 2025**

<b>The Secretary, National Stock Exchange of India Limited,</b> "Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051  <b>Scrip code: ANANTRAJ</b>	<b>The Manager Listing Department BSE Limited,</b> Phiroze Jee Jee Bhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001  <b>Scrip code: 515055</b>
---	--

**Sub: Publication of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2025**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025, as published in "The Economic Times (English)" and "Navbharat Times (Hindi)" on July 25, 2025.

Copy of the said advertisement is also placed at our website [www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com)

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking You,

Yours Truly,  
For **Anant Raj Limited**

**Neeraj Kumar  
Company Secretary  
A55302**

Encl: As above



# Manufacturing PMI Climbs to 17-Yr High of 59.2 in July

International orders surged to their strongest level since the series began

**Our Bureau**

**New Delhi:** India's private sector activity remained strong in July, maintaining a reading above the 60 mark for the second consecutive month, with the manufacturing sector recording its highest level in 17 years, growing faster than services, according to a private survey.

The HSBC Flash India Composite Output Index was at 60.7 in July, slightly lower than 61 in June. The Composite Purchasing Managers Index (PMI) is a weighted average

of comparable manufacturing and services indices.

"India's flash composite PMI remained healthy in July. The strong performance was bolstered by growth in total sales, export orders, and output levels," said Pranjul Bhandari, chief India economist at HSBC.

Manufacturing PMI climbed to 59.2, its highest level in around 17 years, "indicative of a robust improvement in the health of the manufacturing industry", the survey mentioned. Goods producers experienced a faster rise in output compared to service providers.

Similarly, regarding output, manufacturers saw a sharper increase in new orders than the service sector, with growth accelerating in the former but easing in the latter.

Overall, sales expanded at

their quickest pace in a year.

"Indian manufacturers led the way, recording faster rates of expansion than services for all of the three metrics – sales, output and export orders," said Bhandari.

International orders surged to their strongest level since the series began, the survey noted, driven by demand from across the world, including Asia, Europe and US.

"Growth of new export orders accelerated in the service economy, whilst it slowed among goods producers," it added.

However, job creation slowed in July, marking the weakest employment growth in 15 months, with a notable slowdown in the services sector.

Meanwhile, inflationary pressures continue to heat up as both input costs and output

charges rose in July, said Bhandari.

According to the firms surveyed, prices rose in aluminium, cotton, foodstuffs (cooking oil, egg, meat, vegetables), rubber, steel and transportation. Service firms faced a steeper rise in input costs compared to manufacturers.

"Charge inflation likewise intensified in July, as private sector companies sought to share additional cost burdens with their clients by lifting selling prices," it added.

Business sentiment, meanwhile, dropped to its lowest level since March 2023, though firms remained optimistic about output growth in the next 12 months.

"Finally, business confidence fell to its lowest mark since March 2023, while employment growth moderated to its weakest pace in 15 months," said Bhandari.

## Oil Cos' Captive Pipelines may Come Under Regulator's Ambit

Move aims to address regulatory ambiguity, ensure fair competition

**Sanjeev Choudhary**

**New Delhi:** The oil ministry is planning to bring oil companies' captive pipelines under the ambit of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), a move that will help the regulator monitor these pipelines and eventually convert them into common carriers where needed.

The ministry plans to do this by amending the PNGRB Act.

"There is a certain ambiguity on dedicated pipelines today, which the amendment will clarify," an official said, adding that the aim is to get companies to register their dedicated pipelines with the regulator and follow common safety protocols.

"Companies won't be required to seek authorisation from the PNGRB



for the existing dedicated pipelines."

The law doesn't recognise what oil companies call "captive" pipelines and instead uses the term "dedicated" for pipelines that are used solely by companies for their own operations. Based on usage, other pipelines are categorised as either common carrier or contract carrier.

Oil companies that built such "captive" or "dedicated" pipelines years ago have resisted PNGRB's attempts to regulate them or turn them into common carriers. Executives at state-run oil companies remain wary of permitting access to captive pipelines, fearing it could lead to a loss of market share for state-owned firms.

The law already permits the PNGRB to declare a dedicated

pipeline a common carrier or contract carrier, the official said.

PNGRB wrote to Indian Oil, BPCL and HPCL in December 2022, stating that their dedicated pipelines need to be regulated to protect consumer interests.

"The intent of bringing such pipelines under the ambit of PNGRB is to protect the interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities by determining transportation tariff, providing non-discriminatory third-party access and monitoring of compliance of technical and safety standards," PNGRB wrote to the state oil marketing companies in 2022.

Access to transport infrastructure and storage is key to dominance in the fuel market.

Pipelines offer a far cheaper mode of fuel transport than railways. Private refiners currently hold about a 10% share of the petrol, diesel and jet fuel market in the country. With greater access to state firms' pipelines, they could further increase their market share.

## ZyduS Moves Delhi HC Bench on Cancer Drug

**Indu Bhan**

**New Delhi:** ZyduS Lifesciences on Thursday moved the division bench of the Delhi High Court against its single judge's earlier order that temporarily restrained the drugmaker from manufacturing and selling biosimilar of US' ER Squibb's patent Nivolumab, a therapeutic antibody used in the treatment of cancer.

The division bench sought response from the US company, which had alleged patent infringement of its blockbuster anticancer drug Opdyta (nivolumab).

While Squibb alleged that ZyduS was conducting clinical trials for nivolumab and had plans to launch it during its valid patent period, the Indian company denied the allegations, saying its product ZRC-3276 does not infringe upon the existing patents, was following the regulatory provisions and had applied for a marketing approval with the central drug regulatory agency.

## APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443  
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092  
Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304  
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com  
Tel: 0120-6918000



### EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No	Particulars	Quarter ended		Year ended
		June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	5,169.77	4,974.30	20,689.54
2	EBITDA (Including other income)	397.57	326.36	1,295.04
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.95	252.02	960.44
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	237.17	193.17	757.06
6	Total Comprehensive income for the period	255.95	198.96	742.36
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity	-	-	4,153.21
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/- not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	8.55 8.54	6.96 6.96	27.28 27.28

Notes: (₹ in Crs.)

1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025:			
Particulars	Quarter ended		Year ended	
	June 30, 2025	June 30, 2025	March 31, 2025	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Income from Operations	3,372.54	3,501.34	14,360.71	
Profit Before Tax	156.44	123.41	424.54	
Profit After Tax	116.05	92.44	335.59	
2	The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The same can be accessed by scanning the QR Code provided below:			

Place: Noida  
Date: 24 July, 2025



For APL Apollo Tubes Limited  
Sd/-  
Sanjay Gupta  
Chairman and Managing Director



## ANANT RAJ LIMITED

(CIN: L45400HR1985PLC021622)

Regd. Office : Plot No.: CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana -122051, Telefax: 0124-4265817  
Head Office : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001, Tel.: 011-43034400, 011-23324127, 23323880, 43582879  
E-mail: [secretarial@anantrajlimited.com](mailto:secretarial@anantrajlimited.com), Website: [www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com)

### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Rs. in Crores except per share data)

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited) [Refer Note 2]	30.06.2024 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)
1.	Total Income from operations (Net)	602.40	550.90	481.66	2100.28
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and share of profit (loss) in associates and jointly controlled entities)	150.38	140.93	103.74	490.53
3.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, share of profit/(loss) in associates and jointly controlled entities and after Exceptional items)	150.38	140.93	103.74	490.53
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax, (after Exceptional items and share of profit/(loss) in associates and jointly controlled entities)	125.90	118.79	91.01	425.82
5.	Total comprehensive income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	125.90	117.88	91.01	421.07
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 2/- each)	68.65	68.65	68.38	68.65
7.	Other Equity				4,092.14
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualized) (a) Basic EPS (Rs.) (b) Diluted EPS (Rs.)	3.67 3.67	3.47 3.47	2.66 2.66	12.43 12.43

#### NOTES :

- The above unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 24, 2025. The Statutory Auditors of the Company have conducted limited review of these results.
- The figures for the quarter ended March 31, 2025, are the balancing figures between the audited figures for the full financial year ended March 31, 2025, and the unaudited figures for the nine months ended December 31, 2024.
- These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of India Accounting Standards (Ind AS-34) 'Interim Financial Reporting' as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time. The said financial results represent the results of Anant Raj Limited ("the Company"), its subsidiaries (together referred as 'Group') and its share in financial results of associates and jointly controlled entities which have been prepared in accordance with Ind AS-110 'Consolidated Financial Statement' and Ind AS-28 'Investment in Associates and Joint Ventures'.
- Subsequent to the quarter end, the shareholders of the Company at the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting held on July 23, 2025, approved the final dividend @36.50% i.e. Re. 0.73 per equity share (face value of Rs. 2 per equity share) amounting to Rs. 25.06 crores for the financial year ended March 31, 2025.
- During the quarter ended June 30, 2025, the Company redeemed non-convertible debentures amounting to Rs. 50 lakhs, which were originally issued on March 4, 2023.
- The standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 are available on the Company's Website ([www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com))

#### KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION IS GIVEN BELOW :-

(Rs. in Crores)

Sl. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited) [Refer Note 2]	30.06.2024 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)
1.	Total Income	371.04	355.07	284.29	1301.80
2.	Profit/(Loss) before tax	82.72	77.52	56.86	268.05
3.	Profit/(Loss) after tax	69.70	65.11	42.28	219.16
4.	Other Comprehensive Income/(loss)	-	(0.89)	-	(4.73)
5.	Total Comprehensive Income/(loss)	69.70	64.22	42.28	214.43

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the quarter ended June 30, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited financial results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025, are available on websites of National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) & [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on the Company's website at [www.anantrajlimited.com](http://www.anantrajlimited.com), the results can also be accessed by scanning the QR Code provided below:



PLACE : NEW DELHI  
DATE : JULY 24, 2025

For and on behalf of the Board of Directors  
For ANANT RAJ LIMITED

Sd/-  
AMIT SARIN  
Managing Director  
DIN : 00015337

## C. V. NAGESH ASSOCIATES ADVOCATES

**C.V.Nagesh**  
**Senior Advocate**  
**Associates:**

S.R. Chandregowda  
R. Prakash Reddy  
K. Jayaraj Naik  
S.R. Ravishankar  
M.R. Aneel A.S. Mallikarjuna  
Raghavendra K

#33, GANGE,  
Patalamma Temple Street,  
Basavanagudi,  
Bangalore-560 004.  
Tel : 26577424  
Tele. Fax: 26578856  
e-mail : [admin@cvnlawchambers.com](mailto:admin@cvnlawchambers.com)  
Date: 23-07-2025

### CAUTION NOTICE

Our clients M/s. PI Investment Advisory LLP (the Firm) manages investments of "Premji Invest" which is the business name for investments made by the Family Office of Mr. Azim Hasham Premji.

Certain persons taking advantage of the reputation of 'Premji Invest' have created fake websites, Whatsapp groups, social media and mobile applications and utilising certain publicity materials, have impersonated themselves as representatives of our client firm and are luring gullible members of the public to invest and make payments into their fake Firms/Bank Accounts. On getting knowledge of the fraudulent acts committed by the fraudsters, our clients have immediately informed the regulators (including SEBI) and have also filed complaints with the National Cyber Crime reporting Portal. Thereafter, on 18th July, 2025, our clients have lodged a criminal complaint against the fraudsters and a First Information Report (FIR) has been registered by the Eastern CEN Police Station, Bengaluru, under the provisions of Information Technology Act and other allied offences and the same is under investigation.

The General Public is hereby cautioned not to make any payments/investments into such fake and fictitious Firms and if in the event they have already fallen prey to such fraudster, the same may be reported to the Eastern CEN Police Station, Bengaluru.

(RAGHAVENDRA K)  
C.V. NAGESH ASSOCIATES,  
ADVOCATES,  
BENGALURU.



